



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28—जुलाई 4, 2008 (आषाढ़ 7, 1930)
No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28—JULY 4, 2008 (ASHADHA 7, 1930)

इस भाग में पिन् पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 जून 2008

सं. आरएस./3/5/2008/31-कार्मिक--यू एन सी पी के साथ दिनांक 6 जून, 2008 को अपनी सेवा संविदा समाप्त होने के परिणामस्वरूप श्री राजीव इस्सर, उप निदेशक (भाषांतरण) ने 10 जून, 2008 के पूर्वार्द्ध से इस सचिवालय में अपने कर्तव्यों को फिर से संभाल लिया है।

सी. बी. राय, संयुक्त निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2008

सं. ए-19014/03/2008-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री अरूण कुमार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकासयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय में सहायक निदेशक श्रेणी-I (रसायन) को 06 जून, 2008 के पूर्वार्द्ध से चार वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में उप निदेशक नियुक्त करते हैं।

सुनील मिश्र, निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जून 2008

सं.19011/1/2008-(प्रशासन)--राष्ट्रपति, श्री हृदयानन्द उपाध्याय, भारतीय पुलिस सेवा (पश्चिम बंगाल : 73) को संयुक्त आसूचना समिति के अध्यक्ष पद पर दिनांक 02 जून 2008 के अपराह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रोहित खेड़ा, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2008

सं. एफ-6(2043)/2008-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग में उप सलाहकार श्री शिवानन्द एस. अजूर को सी.एस.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के तहत दिनांक 12.06.2008 के पूर्वार्द्ध से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 2008

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.-IV (वि.का.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4.3.2008 को जारी किए गए का.ज्ञा. सं. 5/6/2007-सीएस-II के अनुसरण में तथा श्री ए. के. दासगुप्ता द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में एक नियमित निजी सचिव श्री ए. के. दासगुप्ता को 10,000-15,200/- रु. के वेतनमान में दिनांक 12.5.2008 (पूर्वाह्न) से 30.06.2008 तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त प्रोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2008 तक के लिए की गई है और इससे श्री ए. के. दासगुप्ता को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 30 मई 2008

सं. ए-37012/2/2008-प्रशा.-IV (वि.का.)--अधिवाषिता की आयु होने पर, श्री बृजेंद्र सिंह मोषा, संयुक्त सचिव व विधि सलाहकार दिनांक 31 मई 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो रहे हैं।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 2008

सं. 14012/07/2007-अ.भा.से. III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवोक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हरियाणा राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्रीमती असोमा गर्ग	2004	06.09.2006
2.	श्री सी. जी. राजनी कांतन	2004	06.09.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 2008

सं. 2/पीएफ//2004--राष्ट्रपति, श्री रवि बरुआ को 01.04.2008 (पूर्वाह्न) से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में विदेश मंत्रालय के सरकारी आतिथ्य संगठन (प्रधानमंत्री कार्यालय) में अवर सचिव के तौर पर नियुक्त करती है।

कुलभूषण शर्मा, अवर सचिव (पीएफ)

सं. 1/पीएफ//2004--राष्ट्रपति, श्री जगदीश चंद्र पराशर को 16.04.2008 (पूर्वाह्न) से 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में विदेश मंत्रालय के सरकारी आतिथ्य संगठन (प्रधानमंत्री कार्यालय) में अनुभाग अधिकारी के तौर पर नियुक्त करती है।

कुलभूषण शर्मा, अवर सचिव (पीएफ)

कार्यालय : प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2008

सं. डी-III/460/सीएफ-54/2007--राष्ट्रपति ने श्री उत्सव पारिख की कोलकाता में चेक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री उत्सव पारिख के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल राज्य होगा।

डी. के. शर्मा, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई 2008

सं. 14/2008 (ए-19011/21/2004-ई-1)--राष्ट्रपति द्वारा श्री अमनाथ बिपिन मेनन, आईटीएस (97) को दिनांक 2 मई, 2008 से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

(डॉ.) आर. के. मित्रा, निदेशक

पूर्ति प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2008

सं. ए-32013/1/2008-संवर्ग--राष्ट्रपति, 1994 की चयन सूची के अवर सचिव श्री एम. जे. सेबेस्टियन को 4 जून 2008 (पूर्वाह्न) से पूर्ति प्रभाग में विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर चयन ग्रेड में (केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव पद पर) नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति निजी आधार पर अवर सचिव के पद को उप सचिव के पद पर प्रोन्नत करके की गई है।

2. उक्त तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह तदर्थ प्रोन्नति, उक्त ग्रेड में निरंतर बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने या चयन ग्रेड में वरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- तदर्थ नियुक्ति, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

परमजीत सिंह, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 9 जून 2008

सं. ए-19011/1/2006-प्रशा.--अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधार्थ) नियम, 1958 के नियम 16(2क) और उक्त

नियम में दिए परन्तुक के अनुसरण में और हिमाचल प्रदेश सरकार की दिनांक 07.06.2008 की अधिसूचना संख्या 3-3/73-डीपी-एपीसीटीटी के अनुसरण में, राष्ट्रपति तीन माह की अवधि के अपेक्षित नोटिस का अधित्याग करते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव श्री पी.आई. सुब्रतन, भा.प्र.से. (हि. प्र. : 72) को दिनांक 09.06.2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति देते हैं ताकि वे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण कर सकें।

एस. के. मोहन्ती, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 10 जून 2008

सं. ए-12014/01/2003-स्थापना-राष्ट्रपति श्री पी. के. अग्रवाल, जो इस विभाग में 10,000-325-13,200/- रुपये के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर वैज्ञानिक 'सी' के रूप में कार्य कर रहे हैं, को 11 जून, 2008 के अपराह्न से, उनके मूल संगठन चिकित्सीय मैमोरियल हॉल, कोलकाता वापस भेजते हैं। तदनुसार, श्री पी. के. अग्रवाल, वैज्ञानिक 'सी' को इस विभाग में 11 जून, 2008 के अपराह्न से कार्य मुक्त किया जाता है।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जून 2008

सं. पृथ्वी/31/3/2007-स्था. -- इस मंत्रालय की दिनांक 24.12.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में सक्षम प्राधिकारी सर्वश्री आशिम कुमार मजूमदार और एस. के. चौधरी कनिष्ठ तकनीकी सहायक की तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में हुई पदोन्नति को 22.04.2008 से 21.10.2008 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें भविष्य में वरिष्ठता आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित किए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मंत्रालय को संबंधित कर्मियों को कोई कारण बताए बिना अथवा सूचना आदि दिए बिना इस तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

कृष्ण कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 10 जून 2008

सं. 12025/1/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रिचा धवन को 24.10.2007 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/-रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. रिचा धवन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. रिचा धवन दो वर्ष तक परीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2008

सं. 32011/16/2006-स्था.-II--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर कृषि एवं सहकारिता विभाग के नियमित उपायुक्त (एनआरएम/आरएफएस) श्री आर. के. रावैर को दिनांक 6.5.2008 के पूर्वाह्न से नियमित प्रोन्नति आधार पर इसी विभाग में 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में अपर आयुक्त (एनआरएम/आरएफएस) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. संजयन, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2008

सं. 32011/8/2008-स्था-II--सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से श्री एस. पी. गुप्ता, नियमित वरिष्ठ तकनीकी सहायक (एन आर एम/आर एफ एस) (6,500--10,500/- रुपये) को 15 मई, 2008 (पूर्वाह्न) से 14 नवम्बर, 2008 (अपराह्न) तक अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 8,000--13,500/-रुपये के वेतनमान में पूर्णतया तदर्थ आधार पर सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन आर एम/आर एफ एस) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी (एन आर एम/आर एफ एस) के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होगा।

के. संजयन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2008

सं. ए-19012/4/2008-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्रीमती सुमन लता चोपड़ा, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) के एक कनिष्ठ समयमान (जे.टी.एस.) अधिकारी को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में अनुसंधान अधिकारी के पद पर 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में 3 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 10 जून 2008

सं. ए-12026/1/2007-ई.ए.--राष्ट्रपति, श्री आर. विश्वनाथन (आईईएस : 76) को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में सदस्य (शासकीय) पद पर 2 जून, 2008 को पूर्वाह्न से, तीन वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए, या अगले आदेश, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

सं. ए-19012/5/2003-ई.ए.--अधिवर्धिता की आयु पूरी करने के परिणामस्वरूप 14,300--18,300 के वेतनमान में श्री आर. एस. ठकुरान (आईईएस. के एन एफ एस जी स्तर के अधिकारी), निदेशक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, सरकारी सेवा से 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होते हैं।

डी. के. राय, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जून 2008

सं. 5-1/2008-प्रशा.(पार्ट)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री एच. के. पटनायक को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में दिनांक 10.04.2008 के अपराह्न से 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति कार्यात्मक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.04.2008 तथा 24.04.2008 के आदेश सं. 5-1/2008-सी.एस.1 (डिस्क) के अध्वधीन है।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 मई 2008

सं. ए-42011/15/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री सुधीर नाथ, भारतीय प्रशासन सेवा (मध्य प्रदेश : 1974) को खेल विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सचिव के पद पर 20 मई, 2008 को पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. एम. कुण्डलिया, अवर सचिव

सं. ए. 42011/15/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एस. के. अरोड़ा, भारतीय प्रशासन सेवा (आन्ध्र प्रदेश : 1971) को युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में सचिव के पद पर 20 मई, 2008 को पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. एम. कुण्डलिया, अवर सचिव

**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)**

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जून 2008

सं. 1(5)/2007-कार.L--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', डॉ. गुलशन राव को 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 10.06.2008 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कम्प्यूटर आपात प्रक्रिया दल - भारत (सर्ट-इन) में प्रतिनिधित्व के आधार पर निदेशक नियुक्त किया जाता है।

मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी
संयुक्त निदेशक**नागर विमानन मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2008

सं. ए-19011/1/1998-आर.एस.(पार्ट)--श्री प्रणव कुमार सेन, रेल निरीक्षणालय सेवा के राजपत्रित अधिकारी समूह 'क' जो इस मंत्रालय

के रेल संरक्षा आयोग में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे थे, अपनी अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने के बाद दिनांक 31 मई, 2008 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

सं. ए-32013/01/07-आर.एस.--राष्ट्रपति, श्री रविन्द्र प्रसाद अग्रवाल, रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण मध्य परिघण्डल, सिकंदराबाद को रेल संरक्षा आयोग लखनऊ में वेतनमान रु. 24,050-650-26,000/- में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त के पद पर दिनांक 01.06.2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ओमा नन्द, अवर सचिव

**पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)**

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 मई 2008

सं. ए-12026/4/2001-स्था.--पोत परिवहन विभाग, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के अनुसरण में श्री अनिल परुथो, मुख्य प्रासूपकार की नियुक्ति नियमित आधार पर दिनांक 21.10.2004 (पूर्वाह्न) से की जाती है।

पी. के. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2008

सं. 15/2008-मि.सं. ए-38012/1/2008-प्रशा. एक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, श्री धनो राम जोकि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में निदेशक के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 30 अप्रैल, 2008 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

सं. 16/2008-मि.सं. ए-38012/1/2008-प्रशा. एक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा के सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियंता के ग्रेड में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं : -

क्रम	अधिकारी का नाम	पद ग्रहण करने की तिथि
सं.		
1.	श्री डी. विनोद कुमार	31.03.2008 (पूर्वाह्न)
2.	कुमारी शिवानी शर्मा	19.03.2008 (पूर्वाह्न)
3.	श्री अरूण कुमार पनवाल	02.06.2008 (पूर्वाह्न)

2. यह अधिकारी पद ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परीक्षाधीन रहेंगे।

चन्दन मुखर्जी, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 11th June 2008

No. RS/3/5/2008/31-PerI.—Consequent upon the expiry of his service contract with UNDP on the 6th June, 2008, Shri Rajeev Issar, Deputy Director (Interpretation) has resumed duties in this Secretariat with effect from the forenoon of the 10th June, 2008.

C. B. RAI, Jr. Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 11th June 2008

No. A-19014/03/2008-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Arun Kumar, Assistant Director Grade-I (Chemical) in Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Office of the Development Commissioner (MSME) as Deputy Director in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the National Authority for Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on Deputation basis for a period of four years with effect from the forenoon of 6th June, 2008 or until further orders, whichever event takes place earlier.

SUNIL MISHRA, Director

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd June 2008

No. A-19011/1/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Hridayanand Upadhyay, IPS (WB : 73), as Chairman, JIC with effect from the afternoon of 2nd June 2008 for a tenure of three years or until further orders, whichever is earlier.

ROHIT KHERA, Jr. Secy. (Admn.)

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 11th June 2008

No. F.6(2043)/2008-Admn.I.—The President is pleased to permit Shri Shivanand S. Ajur, JAG officer of IES and Deputy Adviser, Planning Commission to retire voluntary from Government Service with effect from the forenoon of 12.06.2008 under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd May 2008

No. A-32013/4/2006-Admn.IV(LA)—Pursuant to the O. M. No. 5/6/2007-CS.II dated 04.03.2008 issued by the Department of Personnel & Training and consequent upon his joining, the President is pleased to appoint Shri A. K. Dasgupta, a regular Private Secretary of CSSS as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the pay

scale of Rs. 10,000—15,200/- in the CSSS cadre of Ministry of Law & Justice, Department of Legal Affairs w.e.f. 12.05.2008 (FN) upto 30.06.2008 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above said promotion is made purely on ad-hoc basis for the period up to 30.06.2008 and will not confer any right on Shri A. K. Dasgupta to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

The 30th May 2008

No. A-37012/2/2008-Adm.IV(LA)—On attaining the age of superannuation, Shri Brijendra Singh Meena, Joint Secretary & Legal Advisor in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice retires from Government Service with effect from the afternoon of 31st May, 2008.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 11th June 2008

No. 14012/07/2007-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Haryana with effect from the dates shown against them:—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of confirmation
1.	Smt. Ashima Garg	2004	06.09.2006
2.	Shri C. G. Rajini Kaanthan	2004	06.09.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st May 2008

No. 2/PF/2004—The President is pleased to appoint Shri Ravi Barua as Under Secretary in the Government Hospitality Organization (PM's House) of the Ministry of External Affairs in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 01.04.2008 (forenoon).

KULBHUSHAN SHARMA, Under Secy. (PF)

No. 1/PF/2004—The President is pleased to appoint Shri Jagdish Chandra Parashar as Section Officer in the Government Hospitality Organization (PM's House) of the

Ministry of External Affairs in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 16.04.2008 (forenoon).

KULBHUSHAN SHARMA, Under Secy. (PF)

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 10th June 2008

No. D-III/460/CF-54/07—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Utsav Parekh as Honorary Consul of the Czech Republic in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Utsav Parekh comprises the State of West Bengal.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 12th May 2008

No. 14/2008(A-19011/21/2004-E.I)—The President is pleased to appoint Shri Amnath Bipin Menon, ITS(97) as Deputy Secretary in the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce with effect from the afternoon of 2nd May, 2008 for a period of four years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ANURAG SAXENA, Director

SUPPLY DIVISION

New Delhi, the 10th June 2008

No. A-32013/1/2008-Cadre—The President is pleased to appoint Shri M. J. Sebastian, Under Secretary of 1994 Select List, to the Selection Grade (Deputy Secretary of CSS), with effect from the forenoon of June 4, 2008, purely on adhoc basis in the Supply Division by upgrading the post of Under Secretary to Deputy Secretary on personal basis.

2. The ad-hoc promotion is subject to following conditions:—

- (i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

PARMJIT SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 9th June 2008

No. A-19011/1/2006-Admn.—In terms of Government of Himachal Pradesh Notification No. 3-3/73-DP-Appn. dated

07.06.2008, the President is pleased to permit Shri P. J. Suvrathan, IAS (HP: 72) Secretary (FPI) to retire from Govt. Service on 09.06.2008 (AN) by waiving the requisite notice of three month's period in order to enable him to join his new assignment as Chairperson, Food Safety and Standards Authority in pursuance of Rule 16(2A) of the All India Service (DCRB) Rules, 1958 and the proviso of the aforesaid Rule provided there under.

S. K. MOHANTY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 10th June 2008

No. A-12014/01/2003-Estt.—The President is pleased to repatriate Sh. P. K. Agarwal working in this Department as Scientist 'C' in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis, to his parent organization Victoria Memorial Hall, Kolkata with effect from the afternoon of 11th June, 2008. Accordingly, Sh. P. K. Agarwal, Scientist 'C' shall stand relieved of his duties in this Department with effect from the afternoon of 11th June 2008.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi, the 13th June 2008

No. MoES/31/3/2007-Estt.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 24.12.2007 the Competent Authority in the Ministry of Earth Sciences is pleased to extend the promotion of S/Shri Ashim Kumar Mazumdar and S. K. Chowdhury, Junior Technical Assistant to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 22.04.2008 to 21.10.2008 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same for the benefits such as seniority etc. on a further date. The Ministry reserves the right to terminated the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notice etc. to the officer concerned.

KRISHAN KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 10th June 2008

No. A-12025/1/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Richha Dhawan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-15,500/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 24.10.2007 until further orders. Dr. Richha Dhawan is posted as Medical Officer under

Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Riccha Dhawan shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 8th May 2008

No. 32011/16/2006-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri R. K. Rathore, a regular Deputy Commissioner (NRM/RFS) in the Department of Agriculture and Cooperation as Additional Commissioner (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Department on regular promotion basis with effect from the forenoon of 06.05.2008.

K. SANJAYAN, Under Secy.

The 16th May 2008

No. 32011/8/2008-E.II—With the approval of the competent authority, Shri S. P. Gupta, regular Senior Technical Assistant (NRM/RFS) (Rs. 6,500—10,500/-) is appointed to the post of Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS) in the pay scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Department of Agriculture and Cooperation purely on ad-hoc basis with effect from 15th May 2008 (FN) till 14th November 2008 (AN) or until further orders whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and will not confer any right to claim seniority in the grade of Assistant Soil Conservation Officer (NRM/RFS).

K. SANJAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 2nd June 2008

No. A-19012/4/2008-EA—The President is pleased to appoint Smt. Suman Lata Chopra, a Junior Time Scale (JTS) officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Research Officer, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of the 3rd March, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

The 10th June 2008

No. A-12026/1/2007-EA—The President is pleased to appoint Shri R. Viswanathan (IES: 76) to the post of Member (Official) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400/- in the Commission for Agricultural Costs and Prices on deputation basis, for a period not exceeding three years,

with effect from the forenoon of 2nd June, 2008 or until further orders whichever is earlier.

D. K. ROY, Under Secy.

No. A-19012/5/2003-EA—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri R. S. Thakran (NFSG level officer of IES), Director, Commission for Agricultural Costs and Prices, Department of Agriculture and Cooperation, in the pay scale of Rs. 14,300—18,300/- is retired from Government Service, with effect from the afternoon of 31st March, 2008.

D. K. ROY, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 4th June 2008

No. 5-1/2008-Admn(Part)—The President is pleased to appoint Shri H. K. Pattanaik Regular Section Officer of Central Secretariat Service as Under Secretary (Grade-I) on ad-hoc basis in the Ministry of Women and Child Development, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the afternoon of 10.04.2008.

2. The appointment is subject to DoPT's Order No. 5-1/2008-CS.I(Desk) dated 10.04.2008 & 24.04.2008.

Smt. SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi-110001, the 22nd May 2008

No. A-42011/15/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sudhir Nath, Indian Administrative Service (Madhya Pradesh : 1974) as Secretary, Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from the forenoon of 20th May, 2008.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

No. A-42011/15/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Arora, Indian Administrative Service (Andhra Pradesh : 1971) as Secretary, Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs & Sports with effect from the forenoon of 20th May, 2008.

H. M. KUNDLIA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 13th June 2008

No. 1(5)/2007-Pers.I—The President is pleased to appoint Dr. Gulshan Rai, Scientist 'G' in the Department of Information Technology as Director, Computer Emergency Response Team—India (CERT-In) in the scale of pay of

Rs. 22,400-525-24,500/-, on deputation basis, for a period of three years with effect from the forenoon of 10.06.2008 or until further orders, whichever is earlier.

M. I. SIDDIQUI, Jt. Director

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th June 2008

No. A-19011/1/1998-RS(Part)—On attaining the age of superannuation Shri Pranab Kumar Sen, a Group 'A' Officer of the Railway Inspectorate Service in the Ministry of Civil Aviation (Commission of Railway Safety) retired from Government Service from the post of Chief Commissioner of Railway Safety on the afternoon of 31st May, 2008.

OMA NAND, Under Secy.

No. A-32013/01/2007-RS—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Prasad Agrawal, Commissioner of Railway Safety, South Central Circle, Secunderabad to the post of Chief Commissioner of Railway Safety in the Commission of Railway Safety, Lucknow in the scale of pay of Rs. 24,050-650-26,000/- with effect from 01.06.2008 (FN) and until further orders.

OMA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 13th May 2008

No. A-12026/4/2001-Estt—In pursuance of Department of Shipping, Ministry of Shipping, Road Transport and

Highways notification of even no. dated 22 April 2008, the service of Shri Anil Pruthi, Chief Draftsman has been regularized from retrospective date of his ad-hoc promotion i.e. with effect from 21.10.2004.

P. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 10th June 2008

No. 15/2008(A-38012/1/2008-Adm.I)—Shri Dhani Ram, Director, Central Electricity Authority and an officer of the Central Power Engineering (Group A) Service, retired from service under the Government of India in the afternoon of 30th April, 2008 on attaining the age of superannuation.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.

No. 16/2008(A-38012/1/2008-Adm.I)—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of assumption of charge
1.	Shri D. Vinod Kumar	31.03.2008 (Forenoon)
2.	Ms. Shivani Sharma	19.03.2008 (Forenoon)
3.	Shri Arun Kumar Panwar	02.06.2008 (Forenoon)

2. The officers will be on probation for a period of two years from the date of assuming the charge.

CHANDAN MUKHERJEE, Under Secy.